



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1976/भाद्र 27, 1898  
No. 414] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1976/BHADRA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September 1976

**S.O. 620(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column 1 of the Table below, being Gazetted Officer of Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:—

THE TABLE

Designation of officer	Categories of Public Premises and local Limits of Jurisdiction
1	2
The Deputy General Manager, Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi.	Cases pertaining to the unauthorised occupants of lands, buildings and other premises under the administrative control of the Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi.

[No. 3/FTT/76-(F.No. 306/6/76-FTT)]

MAHESH PRASAD, Jt. Secy.

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1976

का० आ० 629(अ).—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राज-पत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्संबंधी प्रविष्टि विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

## सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमायें
1	2
उप महा प्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय प्राधिकरण, दिल्ली ।	दिल्ली विद्युत प्रदाय प्राधिकरण, दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भूमियों, भवनों और अन्य परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोगियों से संबंधित मामले ।

[सं० फा० यू०-13021/23/76-दिल्ली]

महेण प्रसाद, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबंधक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976